



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 19--जून 25, 2004 (ज्येष्ठ 29, 1926)
No. 25] NEW DELHI SATURDAY, JUNE 19--JUNE 25, 2004 (JYASTHA 29, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I--खण्ड 1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	611	भाग II--खण्ड 3 उपखण्ड--(iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संव शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य प्राविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिस्से प्राविहित पाठ (ऐसे भागों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) *	पृष्ठ	पृष्ठ
भाग I--खण्ड 2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	611	भाग II--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश *		
भाग I--खण्ड 3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	3	भाग III--खण्ड 1--उच्च न्यायालयों, निबंधक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं		527
भाग I--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	789	भाग III--खण्ड 2--पेटेंट कार्रवाई द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस		4395
भाग II--खण्ड 1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम *	*	भाग III--खण्ड 3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन प्रवृत्ति द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं		—
भाग II--खण्ड 1 क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ *	*	भाग II--खण्ड 4--विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक विधायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं		2923
भाग II--खण्ड 2--विशेषक तथा विशेषकों पर प्रवर समितियों के विन तथा रिपोर्ट *	*	भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस		171
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संव शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य प्राविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) *	*	भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण *		
भाग II--खण्ड 3--उपखण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संव शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं *	*			

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।

CONTENTS

	Page		Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	611	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	611	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence ..	3	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India. ..	527
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ..	789	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs ..	4395
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations ..	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners ..	—
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations ..	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..	2923
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills ..	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies ..	171
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*		

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(सहा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 मई 2004

सं० एफ० 9-1/2001-यू० 3—मोदी कॉलेज ऑफ इंजीनियरी एण्ड टेक्नालॉजी और मोदी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज सहित मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड रिसर्च, लक्ष्मणगढ़, राजस्थान को इस मंत्रालय के दिनांक 20 फरवरी 2004 की सम संख्यक अधिसूचना के जरिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम (1956) की धारा 3 के उपबंध के अन्तर्गत सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया।

2. संस्थान के अनुरोध और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर केन्द्र सरकार ने यह घोषणा की कि मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड रिसर्च, लक्ष्मणगढ़ के वर्तमान नाम को "मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड साइंस, लक्ष्मणगढ़, राजस्थान" में परिवर्तित कर दिया जाए।

रवि माथुर, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 2004

संकल्प

सं० एफ० 27-25/2001-यू० यू०—ओरोविले फाउंडेशन अधिनियम, 1988 के अध्याय III की धारा-21 की उपधारा (I) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा ओरोविले अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का पुनर्गठन निम्न प्रकार करती है :—

- i. प्रो० किरिट जोशी,
अध्यक्ष, ओरोविले फाउंडेशन,
36, तुगलकाबाद इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
एम० बी० रोड, बत्रा अस्पताल के समीप, नई दिल्ली।
- ii. डा० (सुश्री) एस्टर मीरा पटेल,
ओरो मॉडल सेटलमेंट, "ओरोमोडेल"
ओरोविले फाउंडेशन, ओरोविले, तमिलनाडु।

iii. श्री राजीव मल्होत्रा,

अध्यक्ष, इंटरनिटी फाउंडेशन,

53, व्हाइट ओक ड्राइव प्रिस्टन, न्यू जर्सी-08540

(यू०एस०ए०)

iv. श्री डाउडाउ डायने

मार्फत 8, रुए लयोन बोडोयर 75007,

पेरिस, फ्रांस।

v. डॉ० मार्क ल्यूकिस घिसी

सेल्यूल दे प्रासपेक्टिव यूरोपियन

स्पैरनवैग, 10,

बी-3051 सिंट जोरिस विरोट,

बेल्जियम।

2. परिषद के अध्यक्ष का चयन परिषद के सदस्यों द्वारा उन्हीं के मध्य से किया जाएगा।

3. सदस्यों का कार्यकाल संकल्प की तिथी से 4 वर्ष के लिए होगा। सदस्य अवैतनिक आधार पर कार्य करेंगे।

4. ओरोविले फाउंडेशन का सचिव अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का पदेन सचिव होगा।

आदेश

सामान्य सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया जाता है।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी व्यक्तियों, सचिव, ओरोविले फाउंडेशन जिला चेन्नपुरम, ओरोविले, तमिलनाडु और तमिलनाडु राज्य सरकार को भेज दी जाए।

सी० बालाकृष्णन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE
DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER
EDUCATION)

New Delhi, the 18 May 2004

No. F. 9-1/2001-U. 3—Mody Institute of Education and Research, Lakshmangarh, Rajasthan comprising of Mody College of Engineering and Technology and Mody College of Management Studies was granted deemed to be University status under the provision of Section 3 of the UGC Act (1956) vide this Ministry's Notification of even number dated 20th February, 2004.

2. The Central Government on the request of the Institute and on the advice of UGC hereby declares that the present name of Mody Institute of Education and Research, Lakshmangarh may be changed to "Mody Institute of Technology and Science, Lakshmangarh, Rajasthan".

RAVI MATHUR
Joint Secretary

New Delhi, the 31st May 2004

RESOLUTION

No. F. 27-25/2001-UU—In term of subsection (1) of Section 21 of chapter III of the Auroville Foundation Act, 1988, the Government of India hereby reconstitutes the Auroville International Advisory Council as follows :—

- I. Prof. Kireet Joshi,
Chairman, (GB) Auroville Foundation,
36 Tuglakabad Institutional Area,
M.B. Road, Near Batra Hospital,
New Delhi.

- II. Dr. (Smt.) Aster Mira Patel,
Auro Model Settlement, "Auromodele",
Auroville Foundation,
Auroville, Tamil Nadu.

- III. Shri Rajiv Malhotra,
Chairman, Eternity Foundation,
53, White Oak Drive,
Princeton, NJ-08540 (USA).

- IV. Mr. Doudou Diene
8, rue Leon Vaudoier 75007,
Paris, France.

- V. Dr. Marc Luyckx Ghisi,
Cellule de Prospective European,
Sparrenweg, 10,
B-3051 Sint Joris Weert,
Belgium.

2. The Chairman of the Council shall be elected by the members of the council from among themselves.

3. The term of office of the members shall be for a period of 4 years from the date of this Resolution. The members shall serve in honorary capacity.

4. Secretary, Auroville Foundation would be the Ex-officio Secretary of the International Advisory Council.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Ordered also that a copy of the Resolution may be sent to all the individuals, the Secretary, Auroville Foundation, Villupuram District, Auroville, Tamil Nadu and the Chief Secretary, Government of Tamil Nadu.

C. BALAKRISHNAN
Joint Secretary

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मद्रित

एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित. 2004

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD.
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2004